



प्रेस नोट थाना बाह जनपद आगरा

बाह पुलिस टीम द्वारा घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को किया गया गिफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 जोड़ी पायल व रुपये 12,000-/- बरामद....

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.06.2021 को वादी शिवरतन पुत्र चिरंजीलाल निवासी पुरा जसोल थाना बाह द्वारा थाना बाह पर तहरीर दी गयी कि मैं रात्रि में अपने घर के बाहर आँगन में परिवार के साथ सो रहा था। चोरों ने घर की दीवार तोड़कर घर के अन्दर रखे रुपये 18,000-/- नगद व तोड़िया, अंगूठी आदि व खाने-पीने का सामान चुरा ले गये हैं। इस सम्बन्ध में थाना बाह पर मु0अ0सं0 150/21 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया।

दिनांक 29.06.2021 को वादिया ईदो बेगम निवासी खटीक टूला थाना बाह द्वारा थाना बाह पर तहरीर दी गयी कि मैं रात्रि अपने घर में सो रही थी इस दौरान अज्ञात चोर मकान की पीछे की दीवार तोड़कर एक जोड़ी झुमकी, दो जोड़ी पायल व एक मंगल सूत्र, एक लेडीज अँगूठी सोने की, पीतल के बर्तन व 50,000-/- रुपये कैश चुरा ले गये। इस सम्बन्ध में थाना बाह पर मु0अ0सं0 158/21 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी बाह के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाह को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 05.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन की चैकिंग की जा रही थी, इस दौरान मुखबिर खास ने सूचना दी कि दो व्यक्ति पैदल-पैदल कस्बा बाह से जरार मण्डी के ग्राउण्ड की ओर से बटेश्वर की तरफ आ रहे हैं, जो चोरी/नकबजनी करते हैं। इन लोगों ने खटीक टूला व पुरा जसोल में चोरी नकबजनी की घटनाएँ की है। यदि जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं।

➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम बताये गये स्थान पर पहुँची। पुलिस टीम द्वारा जरार मण्डी के ग्राउण्ड की दीवार दोनों अभियुक्तों को घोर-घोट कर एक बारगी की दबिश देकर गिरफ्तार कर लिये। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 जोड़ी पायल सफेद धातु व रुपये 12,000-/- बरामद किये गये।





➤ पूछताछ का विवरण -

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम 1. मनीष पुत्र शिवराम निवासी हनुमान मन्दिर के पास मौहल्ला जुलाहपुरी थाना बाह व 2. लालू उर्फ इसराइल खाँ पुत्र संकूर खाँ निवासी मौहल्ला नगला सराय ट्यूबेल कालोनी कस्बा थाना बाह जनपद आगरा बताया गया। हम लोग दोस्त हैं और रात्रि में मकानों/दुकानों आदि में नकबजनी/चोरी करते हैं। बरामद रुपये व पायल के बारे में बताया कि ये सामान हम लोगों ने अपने साथी सद्दाम व अवधेश के साथ मिलकर पुरा जसोल में शिवरतन व खटीक टूला में ईदो बेगम के मकान की दीवार तोड़ कर चुराया था व चोरी की गयी सम्पत्ति को हम लोग आपस में बराबर बाँट लेते हैं। बरामदगी में मिले रुपये व सामान उन्ही में से शेष बचे हुए हैं।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. मनीष पुत्र शिवराम निवासी हनुमान मन्दिर के पास मौहल्ला जुलाहपुरी थाना बाह जनपद आगरा।
02. लालू उर्फ इसराइल खाँ पुत्र संकूर खाँ निवासी मौहल्ला नगला सराय ट्यूबेल कालोनी कस्बा थाना बाह जनपद आगरा

➤ बरामदगी का विवरण

01. 03 जोड़ी पायल सफेद धातु
02. रुपये 12,000/- ।

➤ आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 150/21 धारा 380/457 भादवि थाना बाह जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 158/21 धारा 380/457 भादवि थाना बाह जनपद आगरा।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना बाह जनपद आगरा।
02. व0उ0नि0 श्री गंगा प्रसाद थाना बाह जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री आशुतोष कुमार थाना बाह जनपद आगरा।
04. कां0 दीपनारायण सिंह थाना बाह जनपद आगरा।
05. कां0 आशीष कुमार थाना बाह जनपद आगरा।
06. रि0कां0 गौरव कुमार थाना बाह जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।

